



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]
No. 377]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24, 1983/आश्विन 2, 1905
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 24, 1983/ASVINA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

सं. 247/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1983

NO. 247/83-CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th September. 1983

सा. का. नि. 744(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-
शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक
अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं.
33-ख के अन्तर्गत आने वाले 2.00 मिलीमीटर (14 एस डब्ल्यू जी)
मोटाई वाले और उससे अधिक मोटे नग्न तांबे के तारों को,
जिनके बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समा-
धानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उनका 2.00
मिलीमीटर (14 एस डब्ल्यू जी) से गतले नग्न तांबे के तारों के
विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में उपयोग किया जाना
है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय
समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

G.S.R. 744(E).—In exercise of the powers con-
ferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Ex-
cise Rules, 1944, the Central Government hereby
exempts bare copper wires of 2.00 mm (14 SWG)
thickness and thicker, falling under Item No. 33B
of the First Schedule to the Central Excises and
Salt Act, 1944 (1 of 1944), which are proved to
the satisfaction of the Assistant Collector of Central
Excise to be used in the factory of production for
the manufacture of bare copper wires finer than
2.00mm (14 SWG), from the whole of the duty
of excise leviable thereon under section 3 of the
said Act.

[फा. सं. 153/4/79-के.उ.शु.-4]

[F. No. 153/4/79-CX.4]

सं. 24883-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

NO. 248|83-CENTRAL EXCISES

सा. का. नि. 745(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 33-ख के अन्तर्गत आने वाले 3.25 मिलीमीटर (10 एस डब्ल्यू जी) मोटाई वाले और उससे अधिक मोटे नग्न एल्यूमिनियम के तारों को, जिनके बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उनका 3.25 मिलीमीटर (10 एस डब्ल्यू जी) से पतले नग्न एल्यूमिनियम के तारों के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में उपयोग किया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्गाहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 153/4/79-फे.उ.शु.-4]

राजेंद्र प्रसाद, अवर सचिव

G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts bare aluminium wires of 3.25 mm (10S WG) thickness and thicker, falling under Item No. 33B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), which are proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise to be used in the factory of production for the manufacture of bare aluminium wires finer than 3.25 mm (10SWG), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

[F. No. 153|4|79-CX|4]

RAJENDRA PRASAD, Under Secy.